

SAMPLE QUESTION PAPER - I

HINDI

Class - XII



**Government of Kerala
Department of Education**

Prepared by
State Council of Educational Research and Training (SCERT), Kerala
2015

Guidelines for the Preparation of Question Paper for HIGHER SECONDARY EDUCATION 2015 - 16

Introduction

Term evaluation is an important aspect of Continuous and Comprehensive Evaluation (CCE). It covers the **assessment of learning** aspect of the CCE. The Kerala School Curriculum 2013 postulated that the examination system should be recast so as to ensure a method of assessment that is a valid, reliable and objective measure of student development and a powerful instrument for improving the learning process. The outcome focused written tests are being used as tools for terminal assessment. Practical assessment is also considered for some subjects. The syllabus, scheme of work, textual materials, teacher texts and learning experiences may be considered while developing tools for term evaluation.

In order to make the examination system effective and objective, quality of the question paper needs to be ensured. Questions of different types considering various learning outcomes, thinking skills and of varying difficulty levels are to be included in the question paper. This makes question paper setting a significant task that has to be undertaken with the support of proper guidelines.

The guidelines for the preparation of the question paper have been divided into four heads for its effective implementation and monitoring. The areas are **i) preparatory stage, ii) nature of questions, iii) question paper setting and iv) structure of the question paper.**

I. Preparatory stage

Before starting the process of question paper setting, the question paper setter should ensure that she/he has:

- Familiarised the current syllabus and textbook of the concerned subject.
- secured the list of Los (Learning Outcomes) relating to the subject.
- acquired the list of thinking skills applicable to the subject (See appendix).
- prepared a pool of questions from each unit of the subject.
- verified the scheme of work and weight of score for each unit/lesson.
- gone through guidelines for the preparation of question paper for higher secondary education – 2014.

II Nature of questions

Questions selected from the pool to be included in the question paper should reflect the following features:

- stem of the question text should be relevant to the question posed.
- multiple choice questions should be provided with four competitive distracters.
- the possibilities of higher order thinking skills should be considered while setting MCQs
- time allotted for each question should be justified according to the thinking skills involved.

- the scope and length of the answer should be clearly indicated.
- questions should be prepared by considering the learning level of the learner.
- the question should focus on the learning outcomes.
- a wide range of thinking skills and learning outcomes from each unit/lesson should be considered.
- varied forms of questions should be covered.
- there should be a balance between the time allotted and the level of question.
- question should be very specific and free from ambiguity.
- question text should not be too lengthy and complicated.
- questions can be prepared based on a single or a cluster of learning outcomes which is scattered over one particular unit or units.
- cluster of learning outcomes from different units can be considered only for graded questions (questions with sub-divisions).
- the possibilities of graded questions reflecting different thinking skills can be explored.
- while preparing questions for language papers importance should be given to the language elements, language skills, discourses, textual content and elements of creativity.
- while preparing questions for subjects other than languages, importance should be given to content, concepts and skills.
- questions should cater the needs of differently abled learners and CWSEN (Children With Special Education Needs)
- the questions should contain varied forms such as objective type with specific focus to multiple choice test items and descriptive types (short answer and essay types).
- directions regarding the minimum word limit for essay type questions should be given.
- sufficient hints can be provided for essay type questions, if necessary.
- maximum usage of supporting items like pictures, graphs, tables and collage may be used while preparing questions.
- questions which hurt the feelings of caste, religion, gender, etc. must be completely avoided.

III. Question paper setting

During the process of question paper setting the question setter should:

- prepare a design of the question paper with due weight to content, learning outcomes, different forms of questions and thinking skills.
- prepare a blue print based on the design.
- prepare scoring key indicating value points and question based analysis along with the question paper.
- while preparing scoring key, thinking skills should also be integrated.

- 60% weight should be given to thinking skills for conceptual attainment and 40% to thinking skills for conceptual generation.
- 15 to 20% weight of total scores must be given to objective type questions and up to 30% weight of total score must be given to essay type questions.
- the highest score that can be given to a question in the question paper is limited to 10% of the total score.
- while fixing the time for answering a question, time for reading, comprehending and writing the answer must be considered.
- The total time limit of the question paper - two hours for 60 scores and 2.30 hours for 80 scores question papers with an extra cool-off time of 15 minutes.

IV. Structure of the question paper

The question paper should reflect the following features in general:

- general instructions for the question paper should be given on the top.
- instructions for specific questions can be given before the question text.
- monotony of set patterns (objective or descriptive) should be avoided.
- questions should be prepared in bilingual form.
- there should not be any mismatch between the bilingual versions of the questions.
- choice can be given for questions up to 20% of the total score.
- while giving choice, alternative questions should be from the same unit with the same level of thinking skills.
- in the case of languages, language of the questions and answers should be in the particular language concerned. Necessary directions in this regard must be given in the question paper.

THINKING SKILLS

| Category/ processes | Alternative terms |
|--------------------------------|---|
| 1. Remember | Retrieve relevant knowledge from long-term memory |
| 1.1. <i>Recognising</i> | identifying- (e.g. Recognize the dates of important events in Indian history) |
| 1.2. <i>Recalling</i> | retrieving - (e.g. Recall the major exports of India) |
| 2. Understand | Construct meaning from instructional messages, including oral, written and graphic information |
| 2.1. <i>Interpreting</i> | clarifying, paraphrasing, representing, translating (e.g. Write an equation [using B for the number of boys and G for the number of girls] that corresponds to the statement ‘There are twice as many boys as girls in this class’) |
| 2.2. <i>Exemplifying</i> | illustrating, instantiating (e.g. Locate an inorganic compound and tell why it is inorganic) |
| 2.3. <i>Classifying</i> | categorizing, subsuming (e.g. Classify the given transactions to be recorded in Purchase returns book and Sales returns book) |

| | |
|-----------------------------|---|
| <i>2.4. Summarising</i> | abstracting, generalizing (e.g. Students are asked to read an untitled passage and then write an appropriate title.) |
| <i>2.5. Inferring</i> | concluding, extrapolating, interpolating, predicting (e.g. a student may be given three physics problems, two involving one principle and another involving a different principle and ask to state the underlying principle or concept the student is using to arrive at the correct answer.) |
| <i>2.6. Comparing</i> | contrasting, mapping, matching (e.g. Compare historical events to contemporary situations) |
| <i>2.7. Explaining</i> | constructing models (e.g. the students who have studied Ohm's law are asked to explain what happens to the rate of the current when a second battery is added to a circuit.) |
| 3. Apply | Carry out or use a procedure in a given situation |
| <i>3.1. Executing</i> | Carrying out (e.g. Prepare Trading and Profit and loss Account from the Trial Balance given and find out the net profit.) |
| <i>3.2. Implementing</i> | using (e.g. Select the appropriate given situation where Newton's Second Law can be used) |
| 4. Analyse | Break material into its constituent parts and determines how the parts relate to one another and to an overall structure or purpose |
| <i>4.1. Differentiating</i> | discriminating, distinguishing, focusing, selecting (e.g. distinguish between relevant and irrelevant numbers in a mathematical word problem) |
| <i>4.2. Organising</i> | finding coherence, integrating, outlining, parsing, structuring (e.g. the students are asked to write graphic hierarchies best corresponds to the organisation of a presented passage.) |
| <i>4.3. Attributing</i> | deconstructing (e.g. determine the point of view of the author of an essay in terms of his or her ethical perspective) |
| 5. Evaluate | Make judgements based on criteria and standards |
| <i>5.1. Checking</i> | coordinating, detecting, monitoring, testing (e.g. after reading a report of a chemistry experiment, determine whether or not the conclusion follows from the results of the experiment.) |
| <i>5.2. Critiquing</i> | judging (e.g. Judge which of the two methods is the best way to solve a given problem) |
| 6. Create | Put elements together to form a coherent or functional whole; reorganize elements into a new pattern or structure |
| <i>6.1. Generating</i> | hypothesizing (e.g. suggest as many ways as you can to assure that everyone has adequate medical insurance) |
| <i>6.2. Planning</i> | designing (e.g. design social intervention programmes for overcoming excessive consumerism) |
| <i>6.3. Producing</i> | constructing (e.g. the students are asked to write a short story based on some specifications) |

Considering the intellectual level of learners, while setting the question paper;

- 1. 60% weight may be given to thinking skills used for factual and conceptual attainment and**

2. 40% weight may be given to thinking skills for conceptual generation (higher thinking skills has to be ensured in this category). Thinking skills for conceptual generation means thinking skills needed for elaborating the concepts.

Refer the range of thinking skills given above. We can include the thinking skills no.1.1 to 3.2 (11 processes) under first category and 4.1 to 6.3 (8 processes) under second category.

Guidelines for setting question paper - Hindi (Second Language)

- Edé Éi ÉÉÉ oÉÉÉÉÉo | É¶xÉå Eä È+ÉB SÉÉÉo VÉÉxÉÉÉ+Éo Edé Éi ÉÉBÄ {ÉÉ ÉÉÉÉÉo iÉÉo Eäo ½ ½
 - +xÉÉUñu oÉÉÉÉÉo | É¶xÉå Eä È+ÉB SÉÉå VÉÉxÉÉÉ+Éa JÉÉ÷{ÉÉ ÉÉÉÉÉo iÉÉo Eä {ÉÉ iÉÉMå Eäé +RÉ ½ ½
 - {ÉÉ ÉÉÉÉÉo iÉÉo Eä {ÉÉqÉÉÉÉo ¶ÉnÉlÉç Eä +ÉvÉÉq {ÉÉ ½ {ÉÉqÉÉÉÉo ¶ÉnÉlÉ+Éo oÉÉÉÉÉo | É¶xÉ {ÉÉ*
 - ÈxÉ ÉÉÉÉÉi iÉÉo | É¶xÉå Eä oÉÉÉ +É É¶qÉÉo oÉÉÉÉBÄ WÉo ü® n*
 - +xÉÉÉñu Eäé | É¶xÉ {ÉÉÉÉ-Uô ÈÉC²Éå Eäé oÉÉÉ, oÉÉÉxÉÉÉ B ÉÉUÉÉÉÉÉÉÉo +AÉÉÉo JÉÉ÷Eä +ÉvÉÉq {ÉÉ ½* +ÉvÉÉdÉvÉÉo +AÉÉÉo ¶ÉnÉlå Eäé È½o ¶ÉnÉlÉç iÉo n*

अधिगम उपलब्धियाँ

- 1.1 द्रविवेदी युगीन कविता की प्रवृत्तियों पर चर्चा करके कविता की आस्वादन-टिप्पणी लिखता है।
- 1.2 पत्र की शैली पहचानकर विभिन्न प्रसंगों पर पत्र लिखता है।
- 1.3 पत्र के आशय का विश्लेषण करके विधांतरण करता है।
- 1.4 भाषण की शैली पहचानकर विभिन्न सामाजिक विषयों पर भाषण तैयार करता है।
- 1.5 भाषण का आशयग्रहण करके स्वतंत्रता का महत्व पहचानकर टिप्पणी लिखता है।
- 1.6 अंग्रेज़ी के छोटे-से अनुच्छेदों का हिंदी में अनुवाद करता है।
- 2.1 सफ़रनामा की शैलीगत विशेषताएँ पहचानकर आस्वादन करता है।
- 2.2 विभिन्न प्रसंगों का विधांतरण करता है।
- 2.3 सफ़रनामा के आशय का विश्लेषण करके टिप्पणी लिखता है।
- 2.4 मध्यकालीन भक्तकवि सूरदास के पदों की विशेषताओं पर चर्चा करके व्याख्या करता है।
- 2.5 सूरदास के पदों का आस्वादन करके विधांतरण करता है।
- 2.6 फिल्मी गीतों की विशेषताएँ पहचानकर आस्वादन करता है एवं टिप्पणी लिखता है।
- 2.7 हिंदी के प्रचार-प्रसार में हिंदी फिल्मी गीतों की भूमिका एवं प्रासंगिकता पहचानकर गीतों का संकलन करता है।
- 2.8 विज्ञान, वाणिज्य एवं मानविकी के क्षेत्र में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग करता है।
- 3.1 आत्मकथा की शैलीगत विशेषताएँ पहचानकर विभिन्न प्रसंगों का विधांतरण करता है।
- 3.2 हिंदीतर भाषी कविता की विशेषताएँ पहचानकर आस्वादन-टिप्पणी लिखता है।
- 3.3 समकालीन कहानी की अवधारणा पाकर कहानी के पात्रों के चरित्र पर टिप्पणी लिखता है।
- 3.4 कहानी के आशय का विश्लेषण करके विभिन्न प्रसंगों का विधांतरण करता है।
- 3.5 हाइकू कविता की विशेष शैली पहचानकर उसकी व्याख्या करता है।
- 4.1 अनूदित कविता के आशय का विश्लेषण करके आस्वादन-टिप्पणी लिखता है।
- 4.2 संस्मरण की शैलीगत विशेषताओं से अवगत होकर विभिन्न प्रसंगों का विधांतरण करता है।
- 4.3 समकालीन कविता की विशेषताएँ पहचानकर आस्वादन-टिप्पणी लिखता है।
- 4.4 व्यंग्य की प्रासंगिकता पहचानकर आस्वादन करता है और टिप्पणी लिखता है।
- 4.5 व्यंग्य के आशय का विश्लेषण करके प्रसंगों का विधांतरण करता है।
- 4.5 विभिन्न सामाजिक विषयों की अवधारणा पाकर उसे 'स्किट' के रूप में प्रस्तुत करता है।

Sample Question Paper (Part - II Hindi) - SET 1

Weight to content & Learning Outcomes

| Qn. No. | Content/Unit | LO No | Score | Percentage |
|--------------------|---|--------------|--------------|-------------------|
| 1. | + एवं दो वाक्यों का सम्बन्ध | 4.3 | 1 | 1.25 |
| 2. | + एवं दो वाक्यों का सम्बन्ध | 4.3 | 1 | 1.25 |
| 3. | + एवं दो वाक्यों का सम्बन्ध | 4.3 | 2 | 2.5 |
| 4. | + एवं दो वाक्यों का सम्बन्ध | 4.3 | 7 | 8.75 |
| 5. | विशेषज्ञ वर्णन के लिए वाक्यों का सम्बन्ध | 3.1 | 1 | 1.25 |
| 6. | विशेषज्ञ वर्णन के लिए वाक्यों का सम्बन्ध | 3.1 | 2 | 2.5 |
| 7. | विशेषज्ञ वर्णन के लिए वाक्यों का सम्बन्ध | 3.1 | 3 | 3.75 |
| 8. | विशेषज्ञ वर्णन के लिए वाक्यों का सम्बन्ध | 3.1 | 7 | 8.75 |
| 9. | विशेषज्ञ वर्णन के लिए वाक्यों का सम्बन्ध | 3.1 | 1 | 1.25 |
| 10. | (i) विशेषज्ञ वर्णन के लिए वाक्यों का सम्बन्ध | 2.8 | 1 | 1.25 |
| | (ii) विशेषज्ञ वर्णन के लिए वाक्यों का सम्बन्ध | 2.8 | 1 | 1.25 |
| | (iii) विशेषज्ञ वर्णन के लिए वाक्यों का सम्बन्ध | 2.8 | 1 | 1.25 |
| | (iv) विशेषज्ञ वर्णन के लिए वाक्यों का सम्बन्ध | 2.8 | 1 | 1.25 |
| | (v) विशेषज्ञ वर्णन के लिए वाक्यों का सम्बन्ध | 2.8 | 1 | 1.25 |
| | (vi) विशेषज्ञ वर्णन के लिए वाक्यों का सम्बन्ध | 2.8 | 1 | 1.25 |
| | (vii) विशेषज्ञ वर्णन के लिए वाक्यों का सम्बन्ध | 2.8 | 1 | 1.25 |
| | (viii) विशेषज्ञ वर्णन के लिए वाक्यों का सम्बन्ध | 2.8 | 1 | 1.25 |
| 11. | नृत्य | 4.5 | 7 | 8.75 |
| 12. | प्राकृतिक वाक्यों का सम्बन्ध | 1.2, 1.3 | 4 | 5 |
| 13. | विशेषज्ञ वर्णन | 3.5 | 5 | 6.25 |
| 14. | विशेषज्ञ वर्णन के लिए वाक्यों का सम्बन्ध | 2.2 | 7 | 8.75 |
| 15. | विशेषज्ञ वर्णन के लिए वाक्यों का सम्बन्ध | 1.4 | 8 | 10 |
| 16. | विशेषज्ञ वर्णन के लिए वाक्यों का सम्बन्ध | 2.2 | 8 | 10 |
| 17. | विशेषज्ञ वर्णन के लिए वाक्यों का सम्बन्ध | 4.2 | 8 | 10 |
| 18. | विशेषज्ञ वर्णन के लिए वाक्यों का सम्बन्ध | 1.6 | 8 | 10 |
| 19. | नृत्य | 4.5 | 8 | 10 |

WEIGHT TO THINKING SKILLS

| No. | Thinking Skills | Score | Percentage |
|-----|---------------------------|-----------|------------|
| 1 | For Conceptual Attainment | 49 | 60 |
| 2 | For Conceptual Generation | 31 | 40 |
| | Total | 80 | 100 |

WEIGHT TO FORM OF QUESTIONS

| No. | Type | No. of Questions | Score | Percentage |
|-----|--------------|------------------|-----------|------------|
| 1 | Objective | 5 | 12 | 15 |
| 2 | Short Answer | 9 | 44 | 55 |
| 3 | Essay | 5 (c) | 24 (c) | 30 |
| | Total | 19 | 80 | 100 |

BLUE PRINT

| Unit/Content | Thinking skills for Conceptual attainment | | | Thinking skills for Conceptual Generation | | | Total |
|--------------------------------|---|--------------|----------|---|--------------|--------------|--------------|
| | Objective | Short Answer | Essay | Objective | Short Answer | Essay | |
| + Énülök Edé SÉPÉ | 2(1 x 2) | 9(2+7) | | | | | 11 |
| MÉTÉK BEÖ Ö+ÉJÖ Edé xÉÉ É ½ | 1(1) | 12(3+2+7) | | 1(1) | | | 14 |
| MÉTÉK Edé +ÉJÖ | 8(1 x 8) | | | | | | 8 |
| Édö Edé xÉÉ | | 4(1) | | | | | 4 |
| Édö | | 5(1) | | | | | 5 |
| NÜÉÉ | | | | | 7(1) | 8(1) | 15 |
| ÓNÉÉ É Édá ÉÉÉ ÉnMÉD | | | | | | 7(1) | 8(1) |
| Édö Édö Édö ½-É {Édö} | | | | | | | 8(1) |
| Édö Édö Édö Édö | | | 8(1) | | | 8(1) | 16 |
| Total | 11 | 30 | 8 | 1 | 14 | 32(C) | 96(C) |

* Choice for 2 Essay Questions Score 16

SAMPLE QUESTION PAPER 2015 - 2016

PART - II

HINDI

Maximum : 80 Scores

HSE-II

Time : 2 ½ hrs

Cool off time : 15 Minutes

General Instruction to candidates

- There is a 'cool-off time' of 15minutes in addition to the writing time of $2\frac{1}{2}$ hrs.
 - You are neither allowed to write your answers nor to discuss anything with others during the cool-off time.
 - Use the 'cool-off time' to get familiar with questions and to plan your answers
 - Read the questions carefully before answering.

ºÉÉÉÉÉÉ : ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ {Egå + Eu 1 ºÉå 4 iÉEò Eå |É|ÉÉåEå =iiÉ@É+ÉÉå

"EÖLÉÖ! " {ÉÖLÉÖ® ÉÖLÉÖ½}

Educação + Aprendizagem Sustentável + Educação

+ ÉE® JÉCÉ ½ M'aEE "É@ {EEoÉ*

oÉÉÉxÉ ÉoÉ®ú{É®ú±Énä

Éan o ÉE; É ÉxÉ o ÉanðÉ EðnūÉ + ÉMæ

Égypte

VÉÉäÊEòiÉxÉò ½ ð aÉÉiÉÉ+Éå ..Éå

f̄as SÉO d̄e l̄EÉ ÉÉÉ oÉÉ ÉÉxÉ*

“WE’EDE BEDE °HØDEDE XEE’E 1P + EDEDEDE EDE + E {gå+ED 5 °fæ9 iEDE EDE | EP HØDEDE =iiEDE
HØDEDE

MB* "Éjé Éjé + Éjá+Éjá 1/4 nò iÉaÉ SégéÉ Éjé 1/4 Éjé* 1/4 Éjé ofÉ aÉ Éjé ofÉ ofÉ ofÉ] iÉaÉ* Éjé Véjá+ [Éjé ofÉ+Éjé JÉ+Éjé + Éjé = nÉjé iÉjé* Véjá= [Éjé iÉjé iÉjé = ofÉjé + xÉjé iÉjé + [Éjé ofÉjé iÉjé "Éjé* Éjé ofÉjé

5. "WÉ Éjé BEjé oÉjé Éjé xÉjé 1/4 Éjé ofÉjé 1/4
(Éjé ofÉjé ofÉjé, "Éjé+Éjé ofÉjé, BEjé, Éjé ofÉjé iÉjé, + "Éjé ofÉjé)
6. Éjé iÉjé Véjá Éjé ofÉjé qÉjé Éjé iÉjé+Éjé 1/4
7. "Énò Edò C aÉ-C aÉ iÉjé ofÉjé Edò MÉjé
8. ={Éjé iÉjé JÉjé ÷ Edò ofÉjé iÉjé Edò
9. ofÉjé iÉjé Edò Éjé+Éjé =Éjé iÉjé ofÉjé nò
10. ofÉjé : Edò Edò ofÉjé Edò Éjé iÉjé ofÉjé Edò*

(1 x 8 = 8)

| | |
|------------|----------|
| Advance | VÉjé Éjé |
| Percentage | >Éjé |
| Geography | {Éjé |
| Bacteria | Éjé V aÉ |
| Humanities | Éjé iÉjé |
| Energy | "Éjé Éjé |
| Commerce | Éjé Éjé |
| Pattern | Éjé |

ofÉjé : "nÉjé" Edò ofÉjé Edò + Éjé {Éjé

Éjé xÉjé ofÉjé, "JÉjé "Éjá Edò iÉjé iÉjé ofÉjé + Éjé ofÉjé ofÉjé 1/4 ofÉjé

ofÉjé ofÉjé ofÉjé + Éjé Véjá Edò ofÉjé ofÉjé + Éjé ofÉjé

11. ofÉjé iÉjé Edò + Éjé ofÉjé ofÉjé + Éjé + xÉjé Véjá Edò ofÉjé Edò ofÉjé iÉjé ofÉjé
- Éjé nÉjé + xÉjé Véjá Edò ofÉjé ofÉjé
- Éjé Edò ofÉjé + xÉjé Véjá Edò ofÉjé ofÉjé
- Éjé nÉjé ofÉjé ofÉjé ofÉjé ofÉjé ofÉjé

ofÉjé : "nÉjé" Véjá Edò ofÉjé Edò aÉjé Éjé {Éjé

- Éjé+Éjé+Éjé ofÉjé ofÉjé ofÉjé ofÉjé ofÉjé ofÉjé ofÉjé ofÉjé

12. ={Éjé iÉjé Éjé ofÉjé Edò + Éjé ofÉjé ofÉjé ofÉjé ofÉjé ofÉjé ofÉjé ofÉjé ofÉjé

7

4

ºÉSÉXÉ : ÉXÉ XÉ+HÉJÉIÉ ¼<ÉU {Égå

VÉX A É 1/1 É 1/E

JÉSÚS É A EDEÍEBA

Digitized by srujanika@gmail.com

13. **W**E**U** E**U** **W**E**U**E**U****U**

- **E** **é** **é** **é** **é** **é** **é**
 - **E** **é** **é** **é** **é** **é** **é** **é**
 - **E** **é** **é** **é** **é** **é** **é** **é**

oEEEEE : 15 oä19 iEEö Eä |É|EEä Eä oEEö19) iEEö Eä =ii@EÜEJä (3x8=24)

15. Éí ñò {Ép iÉEÉÉ ÉaxÉí ñüVÉò EéÉ |ÉÉÉhÉ {ÉgÉí ñ=óÉoÉá|ÉÉÉÉ ÉiÉ BEò UñjÉ + {ÉxÉò oÉ½Eò Eä xÉÉ É {ÉjÉ É+ÉjÉiÉò
½ Éí {ÉjÉ iÉEE® ñ Eò®

- 1947 + 14 Eðó Év að eje Eðó fá E
 - 0 Eíje þeje { uxþúvæð Eðó oð ExEðá
 - Eíje Eðó nEðá Eí E

- ○ የዕላማ እና በዚህ ይህንን የዕላማ ገዢ የዕላማ የዕላማ የዕላማ
 - ○ የዕላማ የዕላማ + የዕላማ
 - Eo<C>il M P Eo) የዕላማ የዕላማ
 - ○ የዕላማ የዕላማ የዕላማ የዕላማ
 - VEE E JEE የዕላማ የዕላማ
 - PE & PEE የዕላማ የዕላማ

- E¹E²E³E⁴E⁵E⁶E⁷E⁸E⁹E¹⁰
 - M¹E²E³E⁴E⁵E⁶E⁷E⁸E⁹E¹⁰
 - °E¹E²S³+E⁴E⁵E⁶E⁷E⁸E⁹E¹⁰E¹¹E¹²
 - E¹E²E³=E⁴E⁵E⁶
 - n¹E²E³E⁴{E⁵E⁶E⁷E⁸E⁹E¹⁰E¹¹E¹²E¹³E¹⁴E¹⁵E¹⁶

18. තුළු සංස්කරණ ප්‍රතිපාදන මණ්ඩලය + නො පෙනු ලබන මාර්ග

Student life is very important. It is the foundation of future. It is a preparation for the whole life. Future success depends on how it is spent. Students are the leaders of tomorrow. A student learns many new things. He enjoys games. He takes part in debates. It is a very interesting period.

(foundation - තුළු, future - ප්‍රතිපාදන, preparation - පෙනු ලබන, whole life - මාර්ග, success - පේරුව, depend - පෙනු ලබන, spent- පෙනු ලබන, debate - පෙනු ලබන)

19. නො පෙනු ලබන මාර්ග මෙහෙයුම් ප්‍රතිපාදන මණ්ඩලය (NSS Unit) පෙනු ලබන මාර්ග පෙනු ලබන මාර්ග පෙනු ලබන මාර්ග පෙනු ලබන මාර්ග

- පෙනු ලබන මාර්ග + පෙනු ලබන මාර්ග
- පෙනු ලබන මාර්ග + පෙනු ලබන මාර්ග
- පෙනු ලබන මාර්ග + පෙනු ලබන මාර්ග



Answer Key

| | | | |
|----|--|-----------------------|---|
| 13 | <ul style="list-style-type: none"> • Edé EiEE Edé + EiEE oEEÉ EEðEE 1/8 • + EiEE Edé EiEE EiEE EEðEE 1/8 • Edé EiEE Edé oEEÉ EiEE EEðEE 1/8 • + {ExEE oEEÉ} Edé [Edé]o EEðEE 1/8 | 1 1 2 1 | 5 |
| 14 | <ul style="list-style-type: none"> • + xEEÉ E Edé oEEÉEE 1/8 • + xEEÉ Edá Edá Go EiEEÉ EEðEE 1/8 • oEEÉEE Edó + EiEE aEECIE 1/8 • + EiEE EiEE ö EEEÉ 1/8 | 2 2 2 2 | 8 |
| 15 | <ul style="list-style-type: none"> • oEEÉEE + EiEE 1/8 • {EiEE Edó EEEÉ-PEEdó} + {ExEE<ç} 1/8 • oEEÉEE Edé {EE+EÉ EEðEE 1/8} • [foEEÉEE] Edó EiEE EiEE SEaEE 1/8 | 1 2 2 3 | 8 |
| 16 | <ul style="list-style-type: none"> • EE EDE 1/8 • EEE- Edá Edá E EEE- oEEÉEE 1/8 • + {ExEE EiEE Edé oEEÉEE EEðEE 1/8} • EE EEE- PEEdó 1/8 • ={foEEÉEE} 1/8 | 1 2 2 2 1 | 8 |
| 17 | <ul style="list-style-type: none"> • + xEEÉ Edá Edó oEEÉEE 1/8 • + xEEÉ Edá Edá Go EiEEÉ EEðEE 1/8 • oEEÉEE Edó + EiEE aEECIE 1/8 • + EiEE EiEE ö EEEÉ 1/8 | 2 2 2 2 | 8 |
| 18 | <ul style="list-style-type: none"> • JEE÷ Edé + EiEE oEEÉ EEðEE 1/8 • ± EiEE EEEÉ Edá + xEEÉEnú EEðEE 1/8 • ± EiEE EEEÉ Edó PEEdó Edé {EE+EÉ EEðEE 1/8} | 2 3 3 | 8 |
| 19 | <ul style="list-style-type: none"> • oEEÉEE Edó oEEÉ {EE EE EE 1/8} • =ESEiEE PEEnú EECaEE Edé EE EE 1/8 • E EEEÉEE Edó PEEdó + {ExEE<ç} 1/8 • + EEE EE B EEE EE EE 1/8 | 2 2 2 2 | 8 |

QUESTION BASED ANALYSIS - HINDI

| Qn. No. | Content/ Unit | LO. No. | Specific thinking skills (no.) | Form of Questions | Score | Time |
|--------------------|--|--------------------|---|------------------------------|--------------|-------------|
| 1 | + शब्दों का सम्बन्ध | 4.3 | 1.1 | Objective | 1 | 2mts |
| 2 | + शब्दों का सम्बन्ध | 4.3 | 1.1 | Objective | 1 | 2 |
| 3 | + शब्दों का सम्बन्ध | 4.3 | 2.1 | Short Answer | 2 | 4 |
| 4 | + शब्दों का सम्बन्ध | 4.3 | 2.2 | Short Answer | 7 | 15 |
| 5 | वाक्यों में विवरणीय शब्दों का पर्याप्त सम्बन्ध | 3.1 | 1.1 | Objective | 1 | 2 |
| 6 | वाक्यों में विवरणीय शब्दों का पर्याप्त सम्बन्ध | 3.1 | 2.1 | Short Answer | 2 | 4 |
| 7 | वाक्यों में विवरणीय शब्दों का पर्याप्त सम्बन्ध | 3.1 | 2.1 | Short Answer | 3 | 4 |
| 8 | वाक्यों में विवरणीय शब्दों का पर्याप्त सम्बन्ध | 3.1 | 2.4 | Short Answer | 7 | 12 |
| 9 | वाक्यों में विवरणीय शब्दों का पर्याप्त सम्बन्ध | 3.1 | 6.1 | Objective | 1 | 2 |
| 10 | i) वाक्यों में विवरणीय शब्दों का पर्याप्त सम्बन्ध | 2.8 | 1.2 | Objective | 1 | 2 |
| | ii) वाक्यों में विवरणीय शब्दों का पर्याप्त सम्बन्ध | 2.8 | 1.2 | Objective | 1 | 2 |
| | iii) वाक्यों में विवरणीय शब्दों का पर्याप्त सम्बन्ध | 2.8 | 1.2 | Objective | 1 | 2 |
| | iv) वाक्यों में विवरणीय शब्दों का पर्याप्त सम्बन्ध | 2.8 | 1.2 | Objective | 1 | 2 |
| | v) वाक्यों में विवरणीय शब्दों का पर्याप्त सम्बन्ध | 2.8 | 1.2 | Objective | 1 | 2 |
| | vi) वाक्यों में विवरणीय शब्दों का पर्याप्त सम्बन्ध | 2.8 | 1.2 | Objective | 1 | 2 |
| | vii) वाक्यों में विवरणीय शब्दों का पर्याप्त सम्बन्ध | 2.8 | 1.2 | Objective | 1 | 2 |
| | viii) वाक्यों में विवरणीय शब्दों का पर्याप्त सम्बन्ध | 2.8 | 1.2 | Objective | 1 | 2 |
| 11 | प्रत्यक्ष वाक्य | 4.5 | 5.2 | Short Answer | 7 | 15 |
| 12 | वाक्यों में विवरणीय शब्दों का पर्याप्त सम्बन्ध | 1.2, 1.3 | 2.2 | Short Answer | 4 | 5 |
| 13 | वाक्यों में विवरणीय शब्दों का पर्याप्त सम्बन्ध | 3.5 | 2.3 | Short Answer | 5 | 10 |
| 14 | वाक्यों में विवरणीय शब्दों का पर्याप्त सम्बन्ध | 2.2 | 6.2 | Short Answer | 7 | 12 |
| 15 | वाक्यों में विवरणीय शब्दों का पर्याप्त सम्बन्ध | 1.4 | 6.2 | Essay | 8 | 15 |
| 16 | वाक्यों में विवरणीय शब्दों का पर्याप्त सम्बन्ध | 2.2 | 6.2 | Essay | 8 | 15 |
| 17 | वाक्यों में विवरणीय शब्दों का पर्याप्त सम्बन्ध | 4.2 | 5.4 | Essay | 8 | 15 |
| 18 | वाक्यों में विवरणीय शब्दों का पर्याप्त सम्बन्ध | 1.6 | 5.2 | Essay | 8 | 15 |
| 19 | प्रत्यक्ष वाक्य | 4.5 | 5.3 | Essay | 8 | 15 |

SAMPLE QUESTION PAPER - II

HINDI (PART II)

Class - XII



**Government of Kerala
Department of Education**

**Prepared by
State Council of Educational Research and Training (SCERT), Kerala
2014**

Sample Question Paper (Part - III Optional Hindi) - SET II

Weight to content & Learning Outcomes

| Qn. No. | Content | L.O No | Score | Percentage |
|------------|----------------------------------|----------|-------|------------|
| 1. | ‘‘हिंदू’’ | 1.1 | 1 | 1.25 |
| 2. | ‘‘हिंदू’’ | 1.1 | 1 | 1.25 |
| 3. | ‘‘हिंदू’’ | 1.1 | 2 | 2.50 |
| 4. | ‘‘हिंदू’’ | 1.1 | 7 | 8.75 |
| 5. | ‘‘जो दृष्टि वाले | 1.2, 1.3 | 7 | 8.75 |
| 6. | (i) ‘‘हिंदू+ई दृष्टि + दृष्टि | 2.8 | 1 | 1.25 |
| | (ii) ‘‘हिंदू+ई दृष्टि + दृष्टि | 2.8 | 1 | 1.25 |
| | (iii) ‘‘हिंदू+ई दृष्टि + दृष्टि | 2.8 | 1 | 1.25 |
| | (iv) ‘‘हिंदू+ई दृष्टि + दृष्टि | 2.8 | 1 | 1.25 |
| | (v) ‘‘हिंदू+ई दृष्टि + दृष्टि | 2.8 | 1 | 1.25 |
| | (vi) ‘‘हिंदू+ई दृष्टि + दृष्टि | 2.8 | 1 | 1.25 |
| | (vii) ‘‘हिंदू+ई दृष्टि + दृष्टि | 2.8 | 1 | 1.25 |
| | (viii) ‘‘हिंदू+ई दृष्टि + दृष्टि | 2.8 | 1 | 1.25 |
| 7. | ‘‘नृत्य’’ | 4.5 | 1 | 1.25 |
| 8. | ‘‘नृत्य’’ | 4.5 | 3 | 3.75 |
| 9. | ‘‘नृत्य’’ | 4.5 | 2 | 2.50 |
| 10. | ‘‘नृत्य’’ | 4.5 | 7 | 8.75 |
| 11. | ‘‘नृत्य’’ | 4.5 | 1 | 1.25 |
| 12. | ‘‘हिंदू = जपा विहारी’’ | 3.4 | 8(c) | 10 |
| 13. | ‘‘जो दृष्टि वाले... | 1.2 | 8(c) | 10 |
| 14. | ‘‘केवल’’ | 3.5 | 5 | 6.25 |
| 15. | ‘‘हिंदू = जपा विहारी’’ | 3.3 | 4 | 5 |
| 16. | ‘‘जपा विहारी हिंदू’’ | 4.2 | 7 | 8.75 |
| 17. | ‘‘जपा विहारी दृष्टि वाला’’ | 1.6 | 8(c) | 10 |
| 18. | ‘‘हिंदू एवं जपा विहारी हिंदू’’ | 2.2 | 8(c) | 10 |
| 19. | ‘‘जपा विहारी दृष्टि वाला’’ | 1.4 | 8 (c) | 10 |

WEIGHT TO THINKING SKILLS

| No. | Thinking Skills | Score | Percentage |
|-----|---------------------------|-----------|------------|
| 1 | For Conceptual Attainment | 49 | 60 |
| 2 | For Conceptual Generation | 31 | 40 |
| | Total | 80 | 100 |

WEIGHT TO FORM OF QUESTIONS

| No. | Type | No. of Questions | Score | Percentage |
|-----|--------------|------------------|-----------|------------|
| 1 | Objective | 5 | 12 | 15 |
| 2 | Short Answer | 9 | 44 | 55 |
| 3 | Essay | 5 (c) | 24 (c) | 30 |
| | Total | 19 | 80 | 100 |

BLUE PRINT

| Unit/Content | Thinking skills for Conceptual attainment | | | Thinking skills for Conceptual Generation | | | Total |
|-----------------------------------|---|--------------|-------|---|--------------|-------|-------|
| | Objective | Short Answer | Essay | Objective | Short Answer | Essay | |
| “ ବିଦ୍ୟାରେ କିମ୍ବା କିମ୍ବା ” | 2(1 x 2) | 9(2+7) | | | | | 11 |
| ଜୀବନରେ କିମ୍ବା କିମ୍ବା | | | | | 7(1) | 8(1) | 15 |
| “ ପାତ୍ରରେ କିମ୍ବା କିମ୍ବା ” | 8(1 x 8) | | | | | | 8 |
| ନୂତନ | 1(1) | 12(3+2+7) | | 1(1) | | | 14 |
| “ କିମ୍ବା କିମ୍ବା ” | | 4(1) | | | | 8(1) | 12 |
| କିମ୍ବା | | 5(1) | | | | | 5 |
| “ କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା ” | | | | | | | |
| “ କିମ୍ବା କିମ୍ବା ” | | | | | 7(1) | | 7 |
| “ କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା ” | | | | | | | |
| “ କିମ୍ବା କିମ୍ବା ” | | | | | | | |
| Total | 11 | 30 | 8 | 1 | 14 | 32(C) | 96(C) |

* Choice for 2 Essay questions score 16

SAMPLE QUESTION PAPER 2015 - 2016

PART - II

HINDI

Maximum : 80 Scores

HSE-II

Time : 2 ½ hrs

Cool off time : 15 Minutes

General Instruction to candidates

- There is a 'cool-off time' of 15minutes in addition to the writing time of $2\frac{1}{2}$ hrs.
 - You are neither allowed to write your answers nor to discuss anything with others during the cool-off time.
 - Use the 'cool-off time' to get familiar with questions and to plan your answers
 - Read the questions carefully before answering.

°**EÉEXÉÉ** : **E**ÉÉ**XÉÉ+EJÉÉ** **E**ÉÉ**EiEEÉ** {Egå + Eeu 1 °Eä 4 iEÉò Eä |E|XÉÉEäEä =iiE®uE+EJÉä
 XÉO+EÉAE®u {E|VÉEXé 1/®uE iE]ò {E® 0ÉE® 1/®
 OÉE®ESEpu EME EEU]ò "E|E+E E|XEEU 1/®**
 XEEñEÉA |EäE |E|E 1/® ; ÑE E|E® "E|E XE 1/®
 E|EAVÉEXÉ JÉM- EEU |E|E ; ØE E|E/® E|E 1/®**
 E|E®Eä + E|E E|Eò {E|E EEU 1/® E|E E|E® <ØE E|E E|E
 1/® E|E E|E E! iE|oEiE 1/®, oEMBÉ "E|E E|E oE E|E**

1. <sup>oEEä ^oSÉEEEd ^oEEdé 1/2
(+ ÉEÁù ^oÉJPTÖ, EÖ ^oE ^oXEE^ohÉ, "EEÉ+ÉOÉ^ohÉ NÉOÉ, VÉhndÉ NÉOÉ)
2. "ixEEEd ^oPÉnù Edé ^oEÉxEElÖ PÉnù Edá ^oE ^oEaSÉEEd ^oÉ+ÉJÉ
(xÉnÖ, ^oE FÖp ^oiEE+EE^oÉ, xEE+EE)
3. "EEiEPÖÉ Eö + E^oEEhÉ C^aEE-C^aEE 1/2
4. Edé ÉiEEhÉ Edö + E^oEEhNÉ-É] {ÉhEd Ö+ÉJÉ
5. xÉa ^oEä + EÉMÉEE xfa xÉnqEE/ ^oEä "ÉÉ Edä E^oSÉ+ÉiÉ Ed^o ^oEnaEE* "Éa = ^oE EnaÉ Edö bÉf^o "Éa < ^oEEd
ÉNGö Ed^o ^ola 1/2 Ép bÉf^o ^oÉJÉ
 - {É^oEE^oEE+EE^oEdö ^oEEd^o*
 - Ena^oÉd EEf^oEE^oEdö |EEÉ + EEd^oEE*
 - JÉiÉ {ÉgaÉ {É^o=i{ÉxxÉ nñq

6. °ÉSÉXÉÉ : °ÉAÚÈÉ+ÉEXÉ Eoú

$$(8 \times 1 = 8)$$

| | |
|---------------|------------|
| Algebra | EEÉÉÉÉ |
| Atom | oÉÉÉÉÉÉ |
| Commerce | VÉÉÉÉÉÉ |
| Physics | EEÉhÉÉ |
| Gravitation | EEÉÉÉÉ |
| Bio-chemistry | MÉÉÉÉÉÉ |
| Sociology | {E@ÉÉÉhÉ} |
| Trade Union | xEÉÉÉMÉhÉÉ |

oÉÉÉÉÉÉ : nÜÉ ÉdÉÉÉÉÉ + ÉÉ {Égå+ÉÉ 7 oÉä10 iÉÉo Eä | ÉÉÉÉåEä=iíÉ@üÉ+ÉÉ

Edé É + xÉ VÉO Edé + bÉ É Ibhé + É {ibÉ bÉC] fÍaxÉa Eó/bÉnáÉ EE ò afá + ÉvÉE ò oÉa + ÉvÉE ò PÉfá; É[®]
 Eá ÉpÉÉÉ ½ + xÉ VÉO Edó {ixÉ ñxÉa Eó/½ EE ò EÓ ò BÉ ñ Eó nññ ÉvÉo Éfá afá 5-6 PÉfá VÉÉ ÉiÉ up oÉE ò
 iEEÉ ò pÉ É Edó MÉC ò oÉa + ÉxfáÉ+Éfáfá oÉa É+É + É bÉC] fÍaxÉa Eó/½ EE ò Edáç; Ë ò nññ <x½ PÉfá; É[®] oÉa
 + ÉvÉE ò VÉÉ ÉiÉ xÉ/½ up oÉE oÉoÉ*

7. Eo¹ xÉO Ede² {xÉE} Ede³ 1/2 1

8. +xÉE VÉO Eo⁴ {EixÉO xÉabÉC} o⁵ xÉaC⁶ Eo⁷? 3

9. bÉC] o⁸ xÉaC⁹ VÉEE EndEE? 2

10. JÉE Ede¹⁰ o¹¹ xÉchE Eo¹²* 7

11. o¹³ xÉchE Ead¹⁴ B P¹⁵ Ee¹⁶ o n¹⁷ 1

oÉÉÉÉÉÉ : |ÉqMÉ oÉÉaÉÉ 12 + Éu13 Éa oÉÉÉØÉØ BEØ EÉ =iiÉ®uÉ+ÉJÉ

$$(1 \times 8 = 8)$$

{aÉ® ï É|ÉaÉ},

Educação {aff®} Vida {é} o que se vive Eles [é] só o que é

For more information about the study, please contact Dr. John P. Morrissey at (212) 305-2200 or via email at jmorrissey@med.columbia.edu.

Echthru

2015

iÉÖ½® ïÉ½ ËÉ½
ÊxÊÊ· É¹ÊÊ

^oÉSJEÉ : ¼<ÉÚ {Égå

VÉÉ É Ê Ë È Ë Ä Ç

14. **Y****E****Ø** **E****ð** **Y****E****EE****I****E****ç****E****+E****J****a**

5

oÉSSEÉÉÉ : "ÉÉÉÉÉ = i ñ ÉÉÉÉÉ ÉdÉÉÉÉ Éé {ÉÉÉ ÉWÉ ÉÉÉ Eä Éä ÉdÉÉÉ Égå

- “Éé{ǣ@̄ōéEō! Éō = ōEEéá Eō! Éō! xÉÉiEō lEō, Eō, Eō xÉÉEEd̄*
 - ® ō! ÉEō! ÉōōEEá EōxÉá “Éá{EcM̄? + Éū ÉEōōEEd̄ xÉÉEō “Éá xÉÉEEō Eō i[®] sEÉM̄?

15. Eö! Érééá Eä + ÉvÉ®í {®í vÉÉÉ®í} Eä SÉ®í {®í É} {®í hÉ®í} É+ÉjÉä

4

ºÉSÉXÉ : ÉÉÉÉÉÉÉÉ iÉÉÉ® uEo®

$$(2 \times 8 = 16)$$

17. ~~ÊÉÉ XÉÉ+ÉÉ JÉÉÉ + ÉÉÉÉ JÉÉ ÷ ÉÉ ÉÉÉ ÉÉ ÉÉ~~

A great Indian leader Bal Gangadhar Tilak said, 'freedom is my birth right and I shall have it'. Yes, freedom is a fundamental right. Nobody likes to live in slavery. Everybody loves freedom. Even birds and animals like to live in a free atmosphere. We salute our freedom fighters who gave their lives to make it possible for us to breath in free India.

(birth right - VÉX "ÉÉVÉÉ òf®ú fundamental right - "ÉÉÉ + ÉVÉÉ òf®ú slavery - MÉQÉÉÉÉ, atmosphere - ÉÉIÉÉ ÉÍHÉ, salute - oÉ+ÉÉ ÉO náÉÉ, freedom fighters - oÉíÉJÉÉÉ oÉáÉÉxÉO, lives - VÉO ÉxÉ, make it possible - oÉAE É 1/ÉÉÉ, to breath - oÉÉÉ + ÉÉÉ)

18. **EEÉ ±å + EEEä °EÉÉ Eò ïò± É C±Éf nñÉÉÉí ¶EEäfajò± É Edé |Én|EEÉ ½EEäEE+EE ½§ =°EEä ë+EB BEò + EEö|EEò {EE|® iEEÉÉÉ Eo®***

19. È ÉTÉ {ÉAFFECTÉE ENVERS EÉ} ÉA{ÉFFECTÉE ENVERS EÉ} EÉD OÙ ÈE ÈE + ÈÉTÉ{ÉE} EÉD ÈÉS È {ÉSUBÉD} ÈÉTÉ{ÉE} IÉEE{ÉE}

- ◆ {É^aÉÉCÉ® ÉmE Edé É/É*}
 - ◆ {É^aÉÉCÉ® ÉmE Edò o/É*}
 - ◆ {É^aÉÉCÉ® ÉmE Ea n/ÉÉd Edé | Éd®}
 - ◆ {É^aÉÉCÉ® ÉmE- | Én/ÉHÉ RÉ Óká Edé = {É^aÉ*}
 - ◆ VÉÉÉ® ÉmE Edé Gò É



Answer Key

| Qn. No. | Scoring key/Indicators | split Score | Total |
|---------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | ‘EÉÉ+ÉÉÉ ÉÉÉ MÉÉÉ | 1 | 1 |
| 2 | oÉÉÉ | 1 | 1 |
| 3 | Edé ÉÉÉ Edé + ÉÉÉ ÉÉÉ Edé oÉÉ = iiÉ+ÉÉÉ 1* | 2 | 2 |
| 4 | <ul style="list-style-type: none"> • Edé ÉÉÉ Edé {ÉÉÉ Edé 1* • Edé ÉÉÉ Edé Edé aÉÉÉ + ÉÉÉ ÉÉÉ Edé oÉÉÉ 1* • Edé ÉÉÉ Edé oÉÉ 1* • + {Exá oñ] Edé Éá Edé ÉÉÉ Edé ÉÉÉ ÉÉÉ 1* | 1 1 2 3 | 7 |
| 5 | <ul style="list-style-type: none"> • + xÉÉÉ Edé oÉÉÉ 1* • + Éi ÉÉÉ Edé + Éi ÉÉÉ 1* • oÉÉÉ Edé + xÉÉÉ 1* • + Éi ÉÉÉ oÉÉÉ 1* | 1 2 2 2 | 7 |
| 6 | (i) ÉÉÉ MÉÉÉ (ii) {ÉÉÉhÉ (iii) ÉÉÉhÉ (iv) ÉÉÉhÉ (v) MÉÉÉ ÉÉÉhÉ (vi) VÉÉÉ @ÉÉÉ (vii) oÉÉÉ ÉÉÉ ÉÉÉ (viii) ÉÉÉ Edé oÉÉÉ | 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 7 | 1* {ÉÉÉhÉ {ÉÉÉhÉ | 1 | 1 |
| 8 | • + ÉÉÉ-ÉÉÉ Edé oÉÉ = iiÉ+ÉÉÉ 1* | 3 | 3 |
| 9 | • + ÉÉÉ-ÉÉÉ Edé oÉÉ 1* | 2 | 2 |
| 10 | <ul style="list-style-type: none"> • Edé + ÉÉÉ Éá Edé {ÉÉÉ Edé 1* • + xÉÉÉ Éá Edé ÉÉÉ oÉÉ 1* • + {Exá } ÉÉÉ Éá + ÉÉÉ ÉÉÉ ÉÉÉ 1* | 2 2 3 | 7 |
| 11 | =ÉÉÉ ÉÉÉ É+ÉÉÉ 1* | 1 | 1 |
| 12 | <ul style="list-style-type: none"> • + xÉÉÉ Edé oÉÉÉ 1* • + xÉÉÉ Éá Edá Gó ÉÉÉ ÉÉÉ 1* • oÉÉÉ Edé + Éi ÉÉÉ 1* • + Éi ÉÉÉ oÉÉÉ 1* | 2 2 2 2 | 8 |
| 13 | <ul style="list-style-type: none"> • {ÉÉÉ Edé + ÉÉÉ-ÉÉÉ Edé oÉÉ 1* • oÉÉ ÉÉÉ+ÉÉÉ 1* • {ÉÉÉ ÉÉÉ ÉÉÉ ÉÉÉ Edé 1* • {ÉÉÉ Edé ÉÉÉ ÉÉÉ + {Exá oñ 1* • oÉÉ ÉÉÉ Edé {ÉÉÉ ÉÉÉ 1* | 2 2 2 1 1 | 8 |

| Qn. No. | Answer key/Value points | split Score | Total |
|------------|---|----------------------------|-------|
| 14 | <ul style="list-style-type: none"> Ed EiEE Ed + ÉÉafé oÉÉÉ EEoEE ½ + ÉÉafé Ed EiEE oÉÉÉ EEoEE ½ Ed EiEE Ed oÉÉÉ EiEE ½ + {Exá oñ] Edahé [Eo]o EEoEE ½ | 1 1 2 1 | 5 |
| 15 | <ul style="list-style-type: none"> SÉÉJE {oñ JEDE oñ Exá + la oñ Edahé Ed EiEE oñ Edahé EEoEE ½ SÉÉJE Ed oñ Edahé oñ Ezo ½ EiEE + Ed Eo + EiEE {oñ E] oñ Edahé EiEE ½ SÉÉJE Ed oñ Edahé + Ed Ed oñ EiEE + {Exá oñ] Edahé oñ Edahé EEoEE ½ | 1 1 1 1 | 4 |
| 16 | <ul style="list-style-type: none"> E E E E E E E + E E E E E E ½ oñ E E E E E E + E E E E E E ½ E E E E E E + E E E E E E ½ E E E E E E ½ Ed + ExEE ½ oñ E E E E E E + E E E E E E ½ | 1 1 2 1 1 1 | 7 |
| 17 | <ul style="list-style-type: none"> JÉ: Ed + ÉÉafé oÉÉÉ EEoEE ½ ±EiÉ E E E E E E Ed + xExá oñ EEoEE ½ ±EiÉ E E E E E E Ed oñ Eo EE {E E E E E E EEoEE ½ | 2 3 3 | 8 |
| 18 | <ul style="list-style-type: none"> E E E E E E E ½ EiEE oñ Ed oñ SÉÉJE ½ + xExá oñ Eo EE {E E E E E E EEoEE ½ + E E E E E E oñ E E E E E E ½ | 2 2 2 2 | 8 |
| 19 | <ul style="list-style-type: none"> E E E E E E ½ Eñ oñ Ed oñ EiEE oñ EiEE EEoEE ½ + {Exá EiEE Ed oñ EiEE EEoEE ½ E E E E E E ½ = {oñ Eo EE ½ | 1 2 2 2 1 | 8 |

QUESTION BASED ANALYSIS - HINDI

| Qn. No. | Content/ Unit | LO. No. | Specific thinking skills (no.) | Form of Questions | Score | Time |
|---------|---------------------|---------|--------------------------------|-------------------|-------|------|
| 1 | प्राचीन विद्या | 1.1 | 1.1 | Objective | 1 | 2mts |
| 2 | प्राचीन विद्या | 1.1 | 1.1 | Objective | 1 | 2 |
| 3 | प्राचीन विद्या | 1.1 | 2.1 | Short Answer | 2 | 4 |
| 4 | प्राचीन विद्या | 1.1 | 2.2 | Short Answer | 7 | 15 |
| 5 | कृषि एवं खेती | 1.2,1.3 | 6.1 | Short Answer | 7 | 15 |
| 6 | i) भूमि+ई एवं +उ | 2.8 | 1.2 | Objective | 1 | 2 |
| | ii) भूमि+ई एवं +उ | 2.8 | 1.2 | Objective | 1 | 2 |
| | iii) भूमि+ई एवं +उ | 2.8 | 1.2 | Objective | 1 | 2 |
| | iv) भूमि+ई एवं +उ | 2.8 | 1.2 | Objective | 1 | 2 |
| | v) भूमि+ई एवं +उ | 2.8 | 1.2 | Objective | 1 | 2 |
| | vi) भूमि+ई एवं +उ | 2.8 | 1.2 | Objective | 1 | 2 |
| | vii) भूमि+ई एवं +उ | 2.8 | 1.2 | Objective | 1 | 2 |
| | viii) भूमि+ई एवं +उ | 2.8 | 1.2 | Objective | 1 | 2 |
| 7 | नृजीवी | 4.5 | 1.1 | Objective | 1 | 2 |
| 8 | नृजीवी | 4.5 | 2.1 | Short Answer | 3 | 4 |
| 9 | नृजीवी | 4.5 | 2.4 | Short Answer | 2 | 4 |
| 10 | नृजीवी | 4.5 | 2.4 | Short Answer | 7 | 15 |
| 11 | नृजीवी | 4.5 | 5.2 | Objective | 1 | 2 |
| 12 | भौगोलिक ज्ञान | 3.4 | 6.2 | Essay(c) | 8 | 15 |
| 13 | कृषि एवं खेती | 1.2 | 6.3 | Essay(c) | 8 | 15 |
| 14 | विद्युत | 3.5 | 2.3 | Short Answer | 5 | 10 |
| 15 | भौगोलिक ज्ञान | 3.3 | 2.2 | Short Answer | 4 | 5 |
| 16 | भौगोलिक ज्ञान | 4.2 | 5.3 | Short Answer | 7 | 15 |
| 17 | भौगोलिक ज्ञान | 1.6 | 2.3 | Essay | 8(c) | 15 |
| 18 | भौगोलिक ज्ञान | 2.2 | 5.2 | Essay | 8(c) | 15 |
| 19 | भौगोलिक ज्ञान | 1.4 | 5.4 | Essay | 8(c) | 15 |